

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19—मई 25, 2018 (वैशाख 29, 1940)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19—MAY 25, 2018 (VAISAKHA 29, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union
Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

गृह मंत्रालय

(केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 मई, 2018

सं. ओ.दो.-10342/2018-कार्मिक (स.क.).—सरकारी सेवा से त्याग पत्र नोटिस दिनांक 26/02/2018 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सचिन कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-10342), 9 बटालियन केरिपुबल ने दिनांक 27/04/2018 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 27/04/2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय

उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

केन्द्रीय आद्यौगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

सं. ई-16015/एलबीएसएनए/112/2017-कार्मिक-2/342.—केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रोंक ई-16015/एलबीएसएनए/कैऔसुबल/112/2017/कार्मिक 2/354 दिनांक 06.03.2018 के तहत, श्री भेरो प्रताप सिंह, उप कमाण्डेन्ट की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (मंसूरी) में सहायक निदेशक पद पर एक वर्ष के लिए

तदर्थ (प्रतिनियुक्ति) (अधिकतम तीन वर्ष) के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर -11 (67700-208700) में नियुक्ति होने पर इन्होंने दिनांक 08.03.2018 (अपराहन) से उप कमाण्डेन्ट, केओसुबल, 5वीं आरक्षित वाहिनी, गाजियाबाद का पदभार छोड़ दिया ।

2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (मंसूरी) के कार्यालय आदेश संख्या 52, पत्र सं. ए-12011/14/2011-प्रशा. दिनांक 12.03.18 के तहत अधिकारी ने दिनांक 12.03.18 (पूर्वाहन) को सहायक निदेशक पद प्रतिनियुक्ति पर पदभार ग्रहण कर लिया है।

वी के चौरसिया

सहायक महानिरीक्षक/कार्मिक

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2018

सं. ई-16013(1)/प्रति.-भापुसे/सी.वी.आ.-आईजी/2018/कार्मिक-2/354.—राष्ट्रपति, श्री सी.वी. आनंद, भा. पु. से. (टी.जी. :1991) को दिनांक 23.04.2018 (पूर्वाहन) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) में मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के 14वें स्तर में, 5 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर महानिरीक्षक पद पर नियुक्त करते हैं ।

प्राधिकारी:- गृह मंत्रालय का. ज्ञा. सं. I-21017/03/2018-भा.पु.से. III दिनांक 15.02.2018.

जे के तिवारी,

सहायक महानिरीक्षक/कार्मिक

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद, 26 मार्च, 2018

सं.15011/08/2018.—स्था. गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21015/06/2018- भा. पु. से.- III दिनांक 15 फरवरी, 2018 के अनुसरण में दिनांक 12 मार्च 2018 के पूर्वाहन से श्री भूषण गुलाबराव बोरसे, , भा. पु.से. (कर्नाटक-2009) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर 4 वर्ष या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो नियुक्त किया जाता है। अधिकारी समय-समय पर जारी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार उक्त पद के वेतन एवं भत्तों के हकदार होंगे।

डी.आर. डोले बर्मन

निदेशक

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
(महालेखाकार (ले व ह), केरल का कार्यालय)

तिरुवनंतपुरम, 23 अप्रैल, 2018

फा. सं. 01/2018.—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	अनंतकृष्णन एस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.01.2018

के. के. जयकुमार

लेखा अधिकारी/का.स्था.(ह व रो)

तिरुवनंतपुरम, 23 अप्रैल, 2018

फा. सं. 03/2018.—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	पवित्रन नाट्टुकुनियिल	वरिष्ठ लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, कोप्पिकोड	31.03.2018

के. के. जयकुमार
लेखा अधिकारी(ह व रो)

फा. सं. 02/2018.—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	जैनम्मा मात्यु	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	28.02.2018.

के. के. जयकुमार
लेखा अधिकारी/का.स्था.(ह व रो)

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(आयुध निर्माणी बोर्ड)

कोलकाता, 10 अप्रैल, 2018

संख्या 134/कान्फर्मेशन/जीडीएमओ/2016-17/कार्मिक/एम.—राष्ट्रपति महोदय ने परिवीक्षधीन अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर निम्नलिखित मेडिकल अधिकारियों की सहायक मेडिकल अधिकारी के ग्रेड में पुष्टि की हैं।

क्र. सं.	नाम	वैयक्तिक संख्या	पुष्टि की तारीख
1	डॉ. सौरीश दत्ता	982508	27.10.2016
2	डॉ. महेश खन्ना एस.ए.	982510	12.11.2016
3	डॉ. बलदेव प्रसाद कर	982506	01.12.2016
4	डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी	982516	03.11.2016
5	डॉ. शैख उमर फारुक	982513	11.11.2016
6	डॉ. औमप्रकाश भास्कर चिंधलोरे	982525	25.02.2017
7	डॉ. शेख रहमत	982504	09.10.2016
8	डॉ. असोले धीरज विनायक	982524	03.11.2016
9	डॉ. नितिन साहू	982514	28.10.2016
10	डॉ. राजेंद्र प्रसाद बोरला	982512	5.11.2016
11	डॉ. विनय कुमार मुदुलि	982509	11.11.2016
12	डॉ. राजीव कुमार	982518	13.01.2016

13	डॉ. (सुश्री) प्रिया प्रहलाद खोब्रागडे	982507	04.11.2016
14	डॉ. अमगोथू रामू	982511	05.11.2016
15	डॉ. (सुश्री) भनावत स्वाती	982505	11.10.2016
16	डॉ. (सुश्री) टी. अश्विनि	982503	04.09.2016
17	डॉ. रवि कुमार द्विवेदी	982530	29.12.2016

डॉ. पी. पी. वडीखाये
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं
कृते महानिदेशक एवं अध्यक्ष/आ. नि. बोर्ड, कोलकाता

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

सं. 5/1/2018—सी.पी. आई.— मार्च, 2018 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 287 (दो सौ सतासी) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

अमृत लाल जांगिड़
उप निदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(फिल्म प्रभाग)

मुंबई, 18 अप्रैल, 2018

सं. ए-32014/01/2018—स्थापना-I.— विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिशों पर महानिदेशक, फिल्म प्रभाग, श्री मुकेश चंद्र, सहायक निदेशक, फिल्म प्रभाग, मुंबई को पदोन्नति के आधार पर, निर्माण प्रबंधक, वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर पे मैट्रिक लेवल सातवे वेतन आयोगनुसार (पूर्व वेतनमान पी बी-2 रु 9300-34800 में ग्रेड पे रु 4800/-) के वेतनमान में मुंबई के उसी कार्यालय में दिनांक 2 अप्रैल, 2018 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

विप्लव राय भाटिया
उपमहानिदेशक (प्रभारी) एवं कार्यालय प्रमुख
कृते महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भापअके सुविधाएं)

कल्पाक्रम, 24 अप्रैल, 2018

सं. भापअकेसु /भर्ती/2(15)/2018/81468.—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय पुनःचक्रण मंडल, मुंबई, श्रीमती आञ्जीपापा टी पिल्लै, सहायक, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई, को दिनांक 22 मार्च 2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेश आने तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सुविधाएं, कल्पाक्रम में नियमित तौर पर सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नाभिकीय पुनःचक्रण मंडल, कल्पाक्रम के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में नियुक्त करते हैं।

ए. आनंदराज
प्रशासनिक अधिकारी-III

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
(नाभिकीय पुनः चक्रण बोर्ड)
(सामान्य सेवाएं संगठन)
तारापुर कांप्लेक्स
(प्रशासन अनुभाग-II)

संदर्भ: एनआरबी (टी)/प्रशा-II/29/2018/OPA-74009.— मुख्य कार्यकारी, एनआरबी, भापअ केंद्र, मुंबई श्री अरुण विश्वनाथ वटकर, सहायक लेखा अधिकारी, पऊबि., मुंबई को दिनांक 19.03.2018 (पूर्वाहन) से, आगामी आदेशों तक संशोधित वेतन नियम 2016 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल 9 में एन.आर.बी., भापअ केंद्र, तारापुर में लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. डी. वासुदेवन
सहायक कार्मिक अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
(विरल पदार्थ परियोजना)
(प्रशासन अनुभाग)
मैसुरु, 24 अप्रैल, 2018

संदर्भ: 01(02)/RMP/Admin/2016/1381.—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमति स्मिता सचिन हर्याण को दिनांक 09.11.2017 (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक लेवल-8 के वेतन मैट्रिक्स में इस अनुसंधान केंद्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

टी.के. बोस
प्रशासनिक अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)
प्रारूप.सं.एसटीके - 7
नाम हटाने और विधटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में }

ROC-G/248(5)/2017/ 24508. —

कंपनी अधिनियम, 2013 और मैसर्स 66' कम्पनी (सूची सलग्न है) सीआईएन 66 कम्पनी सूची सलग्न के मामले में।

ग्वालियर, 5 मार्च, 2018

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स 66 कम्पनी (सूची सलग्न है) का नाम तारीख से कम्पनीयों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कम्पनीयों का विधटन हो गया है ।

राजपाल सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

S.No.	CIN	कम्पनी नाम
1	U80904MP2014PTC032241	सुवरत एजुटेक प्रायवेट लिमिटेड
2	U30007MP1997PTC012141	फ्रन्टीयर इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड
3	U80904MP2014PTC032332	टॉउनस्मिथ नोलेज पूल ट्रेनिंग प्रोवाइडर प्रायवेट लिमिटेड
4	U24233MP2007PTC020121	नेचुरल अरोमा वेलनेस प्रायवेट लिमिटेड
5	U24232MP1978PTC001453	फ्रन्टीयर फार्मा प्रायवेट लिमिटेड
6	U45203MP2014PTC033540	सुची सिवीकॉन प्रायवेट लिमिटेड
7	U02694MP1990PLC005852	सतपुडा सीमेन्ट एन्ड मिनरल्स लिमिटेड
8	U52322MP2013PTC030126	डार्कब्लू एपेरल्स प्रायवेट लिमिटेड
9	U80903MP2006PTC018475	निदान एडवरटायजिंग एन्ड राईडिंग प्रायवेट लिमिटेड
10	U22120MP2013PTC031451	परिमान मीडिया प्रायवेट लिमिटेड
11	U72900MP2016PTC040615	होपिंगो टेक्नोलॉजी प्रायवेट लिमिटेड
12	U27100MP2016PTC035438	गुडलक स्टील वर्क प्रायवेट लिमिटेड
13	U85110MP2010PTC024129	एवरफूड हेल्थ केयर एन्ड एजुकेशन प्रायवेट लिमिटेड
14	U74900MP2015PTC033912	इन्टियुटिव इन्वोवेशन्स एन्ड रिसर्च प्रायवेट लिमिटेड
15	U80302MP2013PTC031882	मेडिट एजुटेक प्रायवेट लिमिटेड
16	U74300MP2010PTC024109	विविध एड क्रीएशन्स एन्ड सोल्यशन्स प्रायवेट लिमिटेड
17	U32204MP1997PTC011914	मीशी टेलिकॉम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
18	U40100MP2010PLC024232	भाटिया एनर्जी लिमिटेड
19	U24246MP2014PTC033384	अंगराग हर्बल्स प्रायवेट लिमिटेड
20	U18101MP1986PTC003584	विजेता फेब्रिक्स प्रायवेट लिमिटेड
21	U72200MP2010PTC023422	एकोनिक्स टेक्नोलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड
22	U15422MP2014PTC033115	ब्रिजेश्वर सुगर प्रायवेट लिमिटेड
23	U55101MP2012PTC028250	कसाका फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
24	U67120MP2016PTC041983	ट्रेडबिल्स ब्रोकिंग प्रायवेट लिमिटेड
25	U80302MP2013PTC031505	सनवेली क्रीएशन एजुकेशन सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
26	U27102MP2008PTC020727	सिटीमेक्स स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
27	U72300MP2014PTC032949	शोर्ट मैसेज सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
28	U72900MP2016PTC041398	जपाट ब्रोडबेन्ड प्रायवेट लिमिटेड
29	U45201MP2009PTC022857	बोथरा एनवायरो इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
30	U15140MP2011PTC025198	श्री संजोग आईल मिल प्रायवेट लिमिटेड
31	U45200MP2011PTC025992	श्री हाथीवान बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड
32	U92190MP2011PTC025795	गिरिराज रिट्रीट्स एन्ड रिसोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
33	U45201MP1995PTC009279	नर्बदा इलेक्ट्रो कनेक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
34	U74900MP2013PTC031783	नर्मदा जिओ एक्सप्लोरेशन एन्ड रिसोर्सेज प्रायवेट लिमिटेड
35	U45400MP2015PTC034129	ईस्ट इंडिया पथवेज प्रायवेट लिमिटेड
36	U15142MP1994PTC008060	दम्पानी आईल्स प्रायवेट लिमिटेड
37	U72300MP1994PTC008495	टविन एक्पोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
38	U70101MP2012PTC029636	गुरुदेव रियल बिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
39	U24232MP2004PLC016759	दियाबेट्स हेल्थ केयर लिमिटेड
40	U93090MP2016PTC041562	जेडसटिक्स टेक्नोलॉजी एन्ड सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
41	U67120MP2000PTC014011	कृष्णा आर इन्वेस्टमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड

42	U24121MP1986PTC003622	पृथ्वी एलायज एन्ड मेटल्स प्रायवेट लिमिटेड
43	U70102MP2013PTC031817	किशोरी रियलइन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड
44	U55101MP2012PTC027485	साईररा हॉस्पिटलिटी प्रायवेट लिमिटेड
45	U17121MP2013PTC031437	प्रोटोलाईन एप्पेरल्स प्रायवेट लिमिटेड
46	U15137MP1998PTC013117	एसए इंडिया फूड पोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
47	U01401MP1982PTC001987	एग्रो प्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड
48	U40200MP2014PTC033248	श्री स्वामी समर्थ गेसटेक प्रायवेट लिमिटेड
49	U70100MP2012PTC029430	पनवार बिल्डस प्रायवेट लिमिटेड
50	U45209MP2014PTC032709	एरोन बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
51	U74900MP2013PTC031459	टेनिस डिजायर प्रायवेट लिमिटेड
52	U52300MP2015PTC033685	स्टोरएलाइन्स इमार्कैटपैलेस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
53	U92413MP2012PTC029068	स्काउटस360 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
54	U31900MP2014PTC032178	तनिष्क इलेक्ट्रॉनिक्स इन्डौर प्रायवेट लिमिटेड
55	U72200MP2012PTC028347	सुवी इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
56	U74900MP1996PLC010891	स्वर्णनिम ब्रोकरेज सोल्यूशन्स लिमिटेड
57	U17301MP2010PTC022890	मिडलेण्ड एन्टरप्रायजेज प्रायवेट लिमिटेड
58	U80903MP2009PTC021643	मडिको शेपर्स इन्स्टीट्यूट प्रायवेट लिमिटेड
59	U50400MP2008PTC020326	सनटेक ऑटो कम्पोनेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
60	U74999MP2016PTC041513	एन्टसोल टेक्नोलॉजीज आई प्रायवेट लिमिटेड
61	U72900MP2015PTC035035	भभूति इ कॉमर्स एन्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
62	U70102MP2015PTC034932	विजय कुमार जैन कन्सल्टेशन प्रायवेट लिमिटेड
63	U74300MP2016PTC035567	एन्जिल एवेन्यु सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
64	U45200MP2013PTC030614	हैदरी वेयरहाउसिंग इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
65	U15490MP2016PTC035487	गोविन्द सोया प्रायवेट लिमिटेड
66	U74900MP2014PTC033625	पवित्र जोडी शादी प्रायवेट लिमिटेड

नोटिस धारा 37 (1) एम.सी.ए./कं. रजि. गोवा/सी.दे.भ-नियम 37/2018/06252.-

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. कनकधारा रिसोर्सिस एल.एल.पी एल.एल.पी प.स AAC-2889 के विषय में

गोवा, 19 अप्रैल, 2018

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिकूल कारण दर्शित न किए जाने की अवस्था में इस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के उपरांत मै. कनकधारा रिसोर्सिस एल.एल.पी का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा उक्त एल.एल.पी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार, गोवा

नोटिस धारा 37 (1) एम.सी.ए./कं. रजि. गोवा/सी.दे.भ-नियम 37/2018/06257.-

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. नारायण बांदेकर फार्मा एण्ड एनर्जी एल.एल.पी एल.एल.पी प.स AAD-0047 के विषय में

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिकूल कारण दर्शित न किए जाने की अवस्था में इस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के उपरांत मै. नारायण बांदेकर फार्मा एण्ड एनर्जी एल.एल.पी का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा उक्त एल.एल.पी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार, गोवा

नोटिस धारा 37 (1) एम.सी.ए./कं. रजि. गोवा/सी.दे.भ—नियम 37/2018/07130.—

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. ट्रिपॉड क्रिएशंस एल.एल.पी एल.एल.पी प.स AAC-3889 के विषय में

गोवा, 26 अप्रैल, 2018

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिकूल कारण दर्शित न किए जाने की अवस्था में इस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के उपरांत मै. ट्रिपॉड क्रिएशंस एल.एल.पी का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा उक्त एल.एल.पी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार, गोवा

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CENTRAL RESERVE POLICE FORCE DIRECTORATE GENERAL)

New Delhi, the 3rd May, 2018

No.O.-II10342/2018-Pers (A/C).—Consequent on acceptance of his notice dated 26/02/2018 for resignation from Government service, Shri Sachin Kumar, Assistant Commandant (IRLA No. 10342) of 09 Bn CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 27/04/2018. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 27/04/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY

DIG (Pers)

(DIRECTORATE GENERAL)

(CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi, the 23rd April, 2018

No. E-16015/LBSNAA/(112)/2017/PERS.II/342.— In pursuance to CISF HQrs., New Delhi letter No. E-16015/LBSNAA/112/2017/Pers.II/354 dated 06.03.2018, Shri Bhairu Pratap Singh, Deputy Commandant/CISF, has relinquished the charge in the post of Dy. Commandant, CISF 5th Res. Bn., Ghaziabad on 08.03.2018 (AN) for appointment to the post of Assistant Director on adhoc (deputation) basis in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie in Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700/-) in the Pay Matrix initially for a period of one year extendable up to 03 years.

2. The Officer has assumed the charge of Assistant Director in the LBSNAA, Mussoorie on 12.03.2018 (FN) in accordance with Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie office order No. 52 issued letter No. A-12011/14/2011-Adm dated 12.03.2018.

V. K. CHAURASIA

Asstt. Inspector General (Pers)

New Delhi, the 25th April, 2018

No. E-16013(1)/Dep-IPS/CVA-IG/2018/Pers-II/354.—The President is pleased to appoint Shri C. V. Anand, IPS, (TG:1991) as Inspector General in Central Industrial Security Force (MHA) in Level-14 in the Pay Matrix on deputation basis against the existing vacancy with effect from the forenoon of 23.04.2018 for a period of five years from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

Authority: MHA's O.M.No. 1-21017/03/2018-IPS.III dated 15.02.2018

J. K. TIWARI

Asstt. Inspector General (Pers)

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad, the 26th March, 2018

No. 15011/08/2018/-Estt.—In pursuance of MHA letter No. I-21015/06/2018-IPS.III dated 15.02.2018, Shri Bhushan Gulabrao Borase, IPS (KTK: 2009) is appointed as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad in level-12 in the pay matrix on deputation basis for a period of four years with effect from 12.03.2018(FN) or until further orders, whichever event takes place earlier, on usual terms and conditions of deputation. The Officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued time to time.

D. R. DOLEY BARMAN

Director

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
[OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL(A&E)]
THIRUVANANTHAPURAM, the 23rd April, 2018

F. No. 01/2018.—

S.N	NAME	DESIGNATION	DATE OF RETIREMENT
1.	ANANTHAKRISHNAN S	Sr Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.01.2018

K. K. JAYAKUMAR
Accounts Officer /OE(E&C)

THIRUVANANTHAPURAM, the 24th April, 2018

F. No. 03/2018.—

S.N	NAME	DESIGNATION	DATE OF RETIREMENT
1.	PAVITHRAN NATUKKUNIYIL	Sr. Accounts Officer Branch Office, Kozhikode	31.03.2018

K. K. JAYAKUMAR
Accounts Officer(E&C)

F. No. 02/2018.—

S.N	NAME	DESIGNATION	DATE OF RETIREMENT
1.	JAINAMMA MATHEW	Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	28.02.2018

K. K. JAYAKUMAR
Accounts Officer/ OE(E&C)

MINISTRY OF DEFENCE
(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)
(ORDNANCE FACTORY BOARD)

Kolkata, the 10th April, 2018

No. 134/Confirmation/GDMO/2016-17/Per/M.—The President is pleased to confirm the following Medical Officers in the Grade of Assistant Medical Officer on successful completion of their probationary period.

Sl. No.	Name	Per. No.	Date of Confirmation
1	Dr. Sorish Dutta	982508	27-10-16
2	Dr. Mahesh Khanna S. A.	982510	12-11-16
3	Dr. Baladev Prasad Kar	982506	01-11-16
4	Dr. Praveen Kumar Tiwari	982516	03-11-16
5	Dr. Shaikh Umar Farooq	982513	11-11-16
6	Dr. Omprakash Bhaskar Chindhalore	982528	25-02-16
7	Dr. Shaikh Rahamath	982504	09-10-16
8	Dr. Asole Dhiraj Vinayak	982524	03-11-16
9	Dr. Nitin Sahu	982514	28-10-16
10	Dr. Rajendra Prasad Boorla	982512	05-11-16
11	Dr. Binaya Kumar Muduli	982509	11-11-16
12	Dr. Rajeev Kumar	982518	13-10-16
13	Dr. (Ms.) Priya Pralhad Khobragade	982507	04-11-16
14	Dr. Amgothu Ramu	982511	05-11-16
15	Dr. (Ms.) Bhanavath Swathi	982505	11-10-16
16	Dr. (Ms.) T. Aswini	982503	04-09-16
17	Dr. Ravi Kumar Dwivdi	982530	29-12-16

DR. P. P. WADIKHAYE
DHS for DGOF & Chairman

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla, the 27th April, 2018

No. 5/1/2018-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base: 2001=100 remained stationery at 287 (two hundred eighty seven) for the month of March, 2018.

AMRIT LAL JANGIR
Deputy Director

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(FILMS DIVISION)

Mumbai, the 18th April, 2018

No. A-32014/01/2018-Est.-I.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Films Division has promoted Shri Mukesh Chandra, Assistant Director Grade I, Films Division, Mumbai to the post of Production Manager, Group 'B', Gazetted in Pay Matrix Level 8 as per 7th CPC (Pre-revised Rs. 9300-34800 in Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4800/-), in Films Division, Mumbai with effect from the forenoon of 2nd April, 2018 until further orders.

VIPLOV RAI BHATIA

Deputy Director General (I/C) &

Head of Office

For Director General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(BARC FACILITIES)

Kalpakkam, the 24th April, 2018

No.BARCF/Rectt/2(15)/2018/ 81468.— Chief Executive, Nuclear Recycle Board, Mumbai appoints Smt. Achchipapa T. Pillai, Assistant, DAE, Mumbai to the post of Assistant Personnel Officer (Level - 8 of Pay Matrix) in Nuclear Recycle Board, Kalpakkam with effect from the forenoon of 22/03/2018 on regular basis until further orders.

A. ANANDARAJ

Administrative Officer-III

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

(NUCLEAR RECYCLE BOARD)

(GENERAL SERVICES ORGANISATION)

(TARAPUR COMPLEX)

(ADMIN. SECTION-II)

Ref. NRB(T)/Admn.-II/29/2018/OPA-74009.—Chief Executive, NRB, BARC, Mumbai appoints Shri Arun Vishwanath Vatkar, Assistant Accounts Officer, DAE, Mumbai to officiate as Accounts Officer in the level 9 in Pay Matrix of the Revised Pay Rules, 2016 in NRB, BARC, Tarapur with effect from the forenoon of 19.03.2018 on regular basis until further orders.

P.D. VASUDEVAN

Assisant Personnel Officer

Administrative Officer-III

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	G75744946	U80904MP2014PTC032241	SUVRAT EDUTECH PRIVATE LIMITED
2	G75572743	U30007MP1997PTC012141	FRONTIER INFOTECH PRIVATE LIMITED
3	G75547463	U80904MP2014PTC032332	TOWNSPIRIT KNOWLEDGE POOL TRAINING PROVIDER PRIVATE LIMITED
4	G75477067	U24233MP2007PTC020121	NATURE'S AROMA WELLNESS PRIVATE LIMITED
5	G75259424	U24232MP1978PTC001453	FRONTIER PHARMA PVT LTD
6	G75247833	U45203MP2014PTC033540	SUCHI CIVICON PRIVATE LIMITED
7	G74817230	U02694MP1990PLC005852	SATPURA CEMENT & MINERALS LIMITED

8	G74700493	U52322MP2013PTC030126	DARKBLUE APPARELS PRIVATE LIMITED
9	G74654047	U80903MP2006PTC018475	NIDAN ADVERTISING AND RIDING PRIVATE LIMITED
10	G74619198	U22120MP2013PTC031451	PARIMAAN MEDIA PRIVATE LIMITED
11	G74453051	U72900MP2016PTC040615	HOPNGO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
12	G74394370	U27100MP2016PTC035438	GOODLUCK STEEL WORKS PRIVATE LIMITED
13	G74393505	U85110MP2010PTC024129	EVERGOOD HEALTH CARE & EDUCATION PRIVATE LIMITED
14	G74353202	U74900MP2015PTC033912	INTUITIVE INNOVATIONS AND RESEARCH PRIVATE LIMITED
15	G74324195	U80302MP2013PTC031882	MEDIIT EDUTECH PRIVATE LIMITED
16	G74274101	U74300MP2010PTC024109	VIVIDHA AD CREATIONS & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	G74206186	U32204MP1997PTC011914	MISHI TELECOM (INDIA)PRIVATE LIMITED
18	G74140450	U40100MP2010PLC024232	BHATIA ENERGY LIMITED
19	G73970956	U24246MP2014PTC033384	ANGARAAG HERBALS PRIVATE LIMITED
20	G73790297	U18101MP1986PTC003584	VIJETA FABRICS PVT LTD
21	G73643769	U72200MP2010PTC023422	ACCONIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
22	G73622045	U15422MP2014PTC033115	BRIJESHWAR SUGAR PRIVATE LIMITED
23	G73491177	U55101MP2012PTC028250	KASAKA FOODS PRIVATE LIMITED
24	G73129405	U67120MP2016PTC041983	TRADEBELLS BROKING PRIVATE LIMITED
25	G73001828	U80302MP2013PTC031505	SUNVALLY CREATIVE EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
26	G72779101	U27102MP2008PTC020727	STIMEX STEELS PRIVATE LIMITED
27	G72451479	U72300MP2014PTC032949	SHORT MESSAGES SERVICES PRIVATE LIMITED
28	G72413636	U72900MP2016PTC041398	ZAPAAAT BROADBAND PRIVATE LIMITED
29	G72211576	U45201MP2009PTC022857	BOTHRA ENVIRO INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
30	G72073109	U15140MP2011PTC025198	SHREE SANJOG OIL MILL PRIVATE LIMITED
31	G71693394	U45200MP2011PTC025992	SHRI HATHIVAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED
32	G71556542	U92190MP2011PTC025795	GIRIRAJ RETREATS & RESORTS PRIVATE LIMITED
33	G71536874	U45201MP1995PTC009279	NARBADA ELECTRO CONNECTROS PRIVATE LIMITED
34	G71292460	U74900MP2013PTC031783	NARMADA GEO-EXPLORATION & RESOURCES PRIVATE LIMITED
35	G70899547	U45400MP2015PTC034129	EAST INDIA PATHWAYS PRIVATE LIMITED
36	G70700711	U15142MP1994PTC008060	DAMMANI OILS PVT LTD
37	G70650817	U72300MP1994PTC008495	TWIN EXPORTS PVT LTD
38	G70548706	U70101MP2012PTC029636	GURUDEV REAL BUILD PRIVATE LIMITED
39	G70351002	U24232MP2004PLC016759	DIABETES HEALTH CARE LIMITED
40	G70207154	U93090MP2016PTC041562	ZESTIX TECHNOLOGY & SERVICES PRIVATE LIMITED
41	G70173810	U67120MP2000PTC014011	KRISHNA R.INVESTMENT PRIVATE LIMITED
42	G69971000	U24121MP1986PTC003622	PRITHIVI ALLOYS & METALS PVT. LIMITED
43	G69636017	U70102MP2013PTC031817	KISHORI REALINFRA PRIVATE LIMITED
44	G69613164	U55101MP2012PTC027485	SIERRA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
45	G69509669	U17121MP2013PTC031437	PROTOLINE APPARELS PRIVATE LIMITED
46	G69457968	U15137MP1998PTC013117	SA INDIA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
47	G69295384	U01401MP1982PTC001987	AGRO PLAST PVT LTD
48	G69137016	U40200MP2014PTC033248	SHRI SWAMI SAMARTH GASTECH PRIVATE LIMITED
49	G69133072	U70100MP2012PTC029430	PANWAR BUILDERS PRIVATE LIMITED
50	G68972454	U45209MP2014PTC032709	ARON BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

51	G68690528	U74900MP2013PTC031459	TENNIS DEZIRE PRIVATE LIMITED
52	G68666783	U52300MP2015PTC033685	STOREALLIANCE EMARKETPLACE INDIA PRIVATE LIMITED
53	G68663954	U92413MP2012PTC029068	SCOUTS360 INDIA PRIVATE LIMITED
54	G68270784	U31900MP2014PTC032178	TANISHK ELECTRONICS (INDORE) PRIVATE LIMITED
55	G66532565	U72200MP2012PTC028347	SUVI INFORMATION SYSTEM PRIVATE LIMITED
56	G65596488	U74900MP1996PLC010891	SWAARNIM BROKERAGE SOLUTIONS LIMITED
57	G64453970	U17301MP2010PTC022890	MIDLAND ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
58	G64065899	U80903MP2009PTC021643	MEDICO SHAPERS INSTITUTE PRIVATE LIMITED
59	G63925259	U50400MP2008PTC020326	SUNTECH AUTO COMPONENTS PRIVATE LIMITED
60	G63552848	U74999MP2016PTC041513	ENTSOL TECHNOLOGIES (I) PRIVATE LIMITED
61	G62271069	U72900MP2015PTC035035	BHAVBHUTI E-COMMERCE AND TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
62	G61483863	U70102MP2015PTC034932	VIJAY KUMAR JAIN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
63	G60556420	U74300MP2016PTC035567	ANGEL AVENUES SERVICES PRIVATE LIMITED
64	G57381998	U45200MP2013PTC030614	HAIDRY WAREHOUSING INFRA-PROJECTS PRIVATE LIMITED
65	G55150353	U15490MP2016PTC035487	GOVIND SOYA PRIVATE LIMITED
66	G46387569	U74900MP2014PTC033625	PAVITRA JODI SHAADI PRIVATE LIMITED

Notice under Rule 37(1) MCA/ROC-Goa/LLP Rule 37/2018/06252.—

In the matter of the LLP Act, 2008 and M/s. KANAKDHARA RESOURCES LLP LLPIN: AAC-2889

Goa, the 19th April, 2018

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the M/s KANAKDHARA RESOURCES LLP unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved.

PANDURANG KATKAR, VISHNU

RoC – Goa

Notice under Rule 37(1) MCA/ROC-Goa/LLP Rule 37/2018/06257 .—

In the matter of the LLP Act, 2008 and M/s. NARAYAN BANDEKAR PHARMA AND ENERGY LLP LLPIN: AAD-0047

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the M/s NARAYAN BANDEKAR PHARMA AND ENERGY LLP unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved.

PANDURANG KATKAR, VISHNU

RoC – Goa

Notice under Rule 37(1) MCA/ROC-Goa/LLP Rule 37/2018/07130 .—

In the matter of the LLP Act, 2008 and M/s. TRIPOD CREATIONS LLP LLPIN: AAC-3889

Goa, the 26th April, 2018

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the M/s TRIPOD CREATIONS LLP unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved.

PANDURANG KATKAR, VISHNU

RoC - Goa